

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**जनवरी, 2014 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**बुधवार, दिनांक 15 जनवरी, 2014 (पौष 25, 1935)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखेंगी।

(2) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 पटल पर रखेंगे।

## 2. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2014 को

**प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा .....(क्रमशः)**

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।”

निर्धारित  
समय

## 3. शासकीय विधि विषयक कार्य

15 मि.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरहता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

15 मि.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

## 4. वर्ष 2013-2014 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छःहजार छःसौ तेईस करोड़, इकसठ लाख, तिरसठ हजार, छःसौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय।”

2 घन्टे

## 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

## 6. 1999-2000 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 14, 23, 27, 44, 50, 59, 60, 69, 75, 89, 6, 21, 23, 24, एवं 30 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को पांच सौ सत्तावन करोड़, पचानवे लाख, उनतालीस हजार, छः सौ छियासठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय।”

## 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) का \*\*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

\*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

\*\* अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

निर्धारित  
समय

### 8. 2000-2001 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 70, 88, 21, 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक करोड़, तीन लाख, पैसठ हजार, तीन सौ चौसठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.”

30 मि.

### 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 10. 2002-2003 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 24, 67, 53, 21, 23, 44 एवं 67 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अड़तालीस करोड़, अठासी लाख, दो हजार, सात सौ इक्यासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.”

30 मि.

### 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) का \*\*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :  
दिनांक : 14 जनवरी, 2014

राजकुमार पांडे  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा

\* अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

\*\* अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.